

Roll No.

Total Printed Pages - 9

F - 3072**B.Com. (Part - III) Examination, 2022****(Compulsory)****Old Course****Paper First****INCOME TAX***Time : Three Hours]**[Maximum Marks:75**[Minimum Pass Marks:25*

नोट: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt all the five questions. One question from each unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई - 1/Unit - 1

1. मि. अनिरुद्ध रबड़, चाय एवं कॉफी के बागानों के स्वामी हैं। वे उनसे आय प्राप्त करते हैं। उनकी एक नर्सरी भी है जिसमें वे पौधे

उगाते हैं, और बेचते हैं। गत वर्ष में उन्होंने अपनी आयों के निम्न स्रोत दिये हैं:

(i) रबड़ के उत्पादन से आय	₹ 2,75,000
(ii) कॉफी उगाने व बेचने से आय	₹ 1,92,500
(iii) चाय बागानों से आय	₹ 3,85,000
(iv) नर्सरी से पौधे बेचने से आय	₹ 55,000

आय कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Anirudh had estate of Rubber, Tea & coffee. He derives income from them. He also has a nursery wherein he grows plants and sells for the previous year. He furnishes the following particulars:

(i) Income from rubber production	₹ 2,75,000
(ii) Income from growing and selling of coffee	₹ 19,25,000
(iii) Income from Tea Estate	₹ 3,85,000
(iv) Income from sale of plants in nursery	₹ 55,000

You are required to compute the taxable income for the assessment year 2021-22

[3]

अथवा/OR

वित्तीय वर्ष में श्री रामचन्द्र ने निम्न आय की जानकारी प्रेषित की।

- (i) पाकिस्तान में दी गयी सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन
₹ 1,00,000
- (ii) भारत में पेशे से आय परन्तु जापान में प्राप्त ₹ 30,000
- (iii) मलेशिया में सम्पत्ति से आय (जिनमें से ₹ 30,000 भारत मेने
गये) ₹ 60,000
- (iv) रायपुर में व्यापार से औसत आय ₹ 50,000
- (v) कीनिया में कृषि आय ₹ 1,00,000
- (vi) नेपाल में चलाए जा रहे व्यवसाय से आय जिसका
नियंत्रण भारत से होता है ₹ 2,00,000
- (vii) गतवर्ष में लाये गये भूतकालीन आय ₹ 10,000
- कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिये सभी निवास स्थितियों की
कर योग्य आय की गणना कीजिए।

During the financial year Ram Chandra had the following taxable incomes:

- (i) Salary received in India for services rendered in
Pakistan. ₹ 1,00,000
- (ii) Income from profession in India but received in
Japan. ₹ 30,000

F - 3072

P.T.O.

[4]

- (iii) Property income in Malaysia (out of which
₹ 30,000 was remitted to India) ₹ 60,000
- (iv) Profit earned from business in Raipur ₹ 50,000
- (v) Agriculture income from Kenya ₹ 10,000
- (vi) Profit from business carried on at Nepal but con-
trolled from India ₹ 2,00,000
- (vii) Past untaxed income brought to India. ₹ 10,000

Compute the total income of Mr. Ram Chandra in vari-
ous residential status in the A.Y. 2021 - 22.

इकाई - 2/Unit - 2

2. टिप्पणी लिखिए।

1. मकान किराया भत्ता
2. किराया मुक्त मकान
3. मनोरंजन भत्ता

Write short note:

1. House Rent Allowance
2. Rent Free House
3. Entertainment Allowance

F - 3072

[5]

अथवा/OR

टिप्पणी लिखिए:

1. मानक कटौती
2. ऋण पर ब्याज
3. न वसूल हुए किराये के सम्बन्ध में नियम
4. मकान सम्पत्ति शीर्ष से आय जो कर मुक्त है

Write Notes:

1. Standard Deduction
2. Interest on loan
3. Rules regarding unrealized rent
4. Income from house property which are exempted

इकाई - 3/Unit - 3

3. व्यापार की आय की गणना करने में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्पष्टतया अस्वीकृत व्ययों को समझाइए।

Explain clearly the deductions that are expressly disallowed in computing the income from business under the provision of Income Tax Act.

F - 3072

P.T.O.

[6]

अथवा/OR

श्री कृष्ण के विनियोग निम्नलिखित हैं:

- | | |
|--|----------|
| (i) 10% सरकारी प्रतिभूतियाँ | ₹ 60,000 |
| (ii) 10% आगरा म्युनिसिपल बॉण्ड | ₹ 40,000 |
| (iii) 9% बाम्बे पोर्ट ट्रस्ट बाण्ड | ₹ 50,000 |
| (iv) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (II निर्गम) | ₹ 15,000 |
| (v) 7% स्वर्ण बाण्ड | ₹ 20,000 |
| (vi) 7% राष्ट्रीय योजना पत्र | ₹ 8,000 |

इन्होंने ब्याज के संग्रहण के लिए ₹ 70 कमीशन दिया तथा ऋण पर ब्याज (बॉण्ड के क्रय हेतु) ₹ 1000 चुकाये। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Investment of Mr. Krishna are as follow:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| (i) 10% Govt. Securities | ₹ 60,000 |
| (ii) 10% Agra Municipal Bond | ₹ 40,000 |
| (iii) 9% Bombay Port Trust Bond | ₹ 50,000 |
| (iv) 7 years N.S.C. (II issues) | ₹ 15,000 |
| (v) 7% Gold Bonds | ₹ 20,000 |
| (vi) 7% National Plan Certificate | ₹ 8,000 |

F - 3072

[7]

He paid commission ₹ 70 for collection of interest and ₹ 1000 interest on loan for purchase of bonds. Compute taxable income for the A.Y. 2021-22

इकाई - 4/Unit - 4

4. अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी हानियों को आगे ले जाने व पूर्ति से संबंधी प्रावधान बताइये।

Discuss in detail the provision regarding set off and carried forward of losses relating to Short Term and Long Term capital losses.

अथवा/OR

एक व्यक्ति की 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय में निम्नलिखित शामिल है:

- व्यापारिक लाभ (20,000 मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष को दिये गये दान को घटाने के पश्चात्) ₹ 2,40,000
- व्यक्तियों के समुदाय से एक चौथाई भाग जिसमें वह सदस्य था ₹ 8,000
- सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹ 8,000
- म्युचुअल फण्ड की युनिटों से प्राप्त आय ₹ 6000
- लॉटरी से जीत (शुद्ध) ₹ 70,000

कर निर्धारण वर्ष 2021 - 22 के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

F - 3072

P.T.O.

[8]

The income of an individual for the year ended 31st March, 2021. Consist of the following:

- Business profit (After Setting off ₹ 20,000) paid on Donation to the C.M. Relief Fund. ₹ 2,40,000
- One fourth share from an association of persons in which he was a member. ₹ 8,000
- Interest on Govt. securities ₹ 8000
- Income on Unit of M.F. (Gross) ₹ 6000
- Winning from lottery (Net) ₹ 70,000

Compute the total income from the assessment year 2021 - 22.

इकाई - 5/Unit - 5

5. आयुक्त (अपील) कौन होता है? इनके यहाँ अपील करने की प्रक्रिया बताइये।

Who is Commissioner (Appeal)? Discuss the procedure of filing an appeal to the Commissioner (Appeal).

अथवा/OR

F - 3072

[9]

कार्गो कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2020 - 21 में अपनी आय ₹ 2,60,000 होने का अनुमान लगाया। इस आय के अतिरिक्त कम्पनी ने 01.12.2021 को भूमि बेचने पर ₹ 70,000 दीर्घकालीन पूंजी लाभ कमाया। कम्पनी द्वारा विभिन्न किस्तों में देय अग्रिम कर की गणना कीजिए।

Cargo Company Limited estimates its income for the previous year 2020-21 at ₹ 2,60,000 Besides this incomes it has also earned Long Term Capital Gain of ₹ 70,000 on sale of land on 1st Dec. 2021. Compute the advance tax payable by the company in various installments.